

राज्य सूचना विज्ञान केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी की मासिक पत्रिका जेल विभाग को भेंट

भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की छत्तीसगढ़ राज्य सूचना - विज्ञान केंद्र (एन आई सी) नवा रायपुर की मासिक पत्रिका "The InfoNIC" की इस माह की प्रति व इस वर्ष का कैलेंडर जेल विभाग के डी जी पी श्रीमान संजय पिल्लई जी व डॉ. के.के. गुप्ताजी, ए आई जी से सौजन्य भेंट श्री सत्येश कुमार शर्मा (तकनीकी निदेशक) व श्रीमती ज्योति शर्मा (प्रणाली विश्लेषक) द्वारा की गई तथा उन्हें प्रति प्रदान कर उन्हें NIC के विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया। जिसका श्री पिल्लईजी ने प्रशंसा की उन्होंने कहा की NIC छत्तीसगढ़ शासन के कार्यों एवं योजनाओं के कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। ई प्रिजन के क्षेत्र में एन आई सी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए सराहना करते हुए, भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी।



श्री संजय पिल्लई, डी जी पी, प्रिजन, छत्तीसगढ़।



डॉ ओ पी गुप्ता, ए आई जी, प्रिजन, छत्तीसगढ़।

राज्य सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) की मासिक न्यूज़लैटर “The InfoNIC” श्री सोनमणि बोरा, आई.ए.एस. एवं सचिव छ.ग. शासन, संसदीय कार्य विभाग को सप्रेम भेंट.

श्री सत्येश कुमार शर्मा (तकनीकी निदेशक) व श्रीमती ज्योति शर्मा (प्रणाली विश्लेषक) द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) की मासिक न्यूज़लैटर “The InfoNIC” श्री सोनमणि बोरा, आई.ए.एस. एवं सचिव छ.ग. शासन, संसदीय कार्य विभाग को सप्रेम भेंट किया गया. इस अवसर पर श्री सोनमणि बोरा (तात्कालिक सचिव, श्रम विभाग) जी द्वारा वैश्विक महामारी कोविद-19 के दौरान प्रवासी मजदूरों के पंजीयन के लिए काफी अल्प समय में एन.आई.सी. टीम के तकनीकी सहयोग से तैयार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की सराहना की. उन्होंने कहा कि एन.आई.सी. हमेशा अपनी तत्पर सेवाओं के लिए जाना जाता है. आगे उन्होंने ने कहा कि इस तरह के न्यूज़लैटर अन्य विभागों को जानकारी देने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए भी प्रेरित करेगा.

उन्होंने भविष्य के लिए भी अपनी शुभकामनाये दी.



राज्य सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) की मासिक न्यूज़लैटर “The InfoNIC” श्री सोनमणि बोरा, आई.ए.एस. एवं सचिव छ.ग. शासन, संसदीय कार्य विभाग को सप्रेम भेंट.